



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 10 मई, 2022 / 20 वैशाख, 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

आवास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 मई, 2022

संख्या : एच० स०जी०-ए(3)-7/2020.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 75 के

साथ पठित धारा 84 की उप-धारा (2) के खण्ड (य च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, “हिमाचल प्रदेश भू-सम्पदा विनियमन निधि” के गठन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भू-सम्पदा भू-सम्पदा विनियमन निधि का गठन और लागू करने की रीति नियम, 2022 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो.—

- (क) “अधिनियम” से, भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 अभिप्रेत है;
- (ख) “लेखा अवधि” से, वह अवधि अभिप्रेत है – जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा लेखों को तैयार किया जाना है जो वित्तीय वर्ष के समवर्ती होगी ;
- (ग) “आहरण और संवितरण अधिकारी (डी०डी०ओ०)” से, प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकरण की ओर से निधि से धन निकालने और प्राधिकृत भुगतान करने के लिए अधिनियम की धारा 75 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार गठित समिति, अभिप्रेत है;
- (घ) “व्यय” से, अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में प्राधिकरण द्वारा उपगत किया जाने वाला व्यय अभिप्रेत है;
- (ङ) “कर्मचारी” से, प्राधिकरण के कर्मचारी अभिप्रेत है;
- (च) “निधि” से, अधिनियम की धारा 75 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार गठित की जाने वाली हिमाचल प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक निधि अभिप्रेत है;
- (छ) “वित्तीय वर्ष” से, किसी वर्ष के 01 अप्रैल से आरम्भ होने वाले और आगामी वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले वारह कैलेंडर मॉस से अनधिक अवधि, अभिप्रेत है;
- (ज) “सरकार” से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है; और
- (झ) “पारिश्रमिक” से, प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्यों और अधिकारियों तथा कर्मचारियों को संदत्त किया जाने वाला पारिश्रमिक, अभिप्रेत है।

(2) इन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और इन में परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम में हैं।

3. निधि का गठन.—(1) सरकार, अधिनियम की धारा 75 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा हिमाचल प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक निधि के नाम से ज्ञात एक निधि का गठन करेगी।

(2) निधि में निम्नलिखित सम्मिलित होगा.—

- (क) प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी सरकारी अनुदान;

- (ख) अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त फीस;
- (ग) खण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट रकमों पर प्रोद्भूत ब्याज।

4. निधि का उपयोजन.—निधि निम्नलिखित व्ययों को चुकाने के लिए उपयोजित की जाएगी:—

- (i) अध्यक्ष, न्यायनिर्णायक अधिकारी को संदेय वेतन और भत्तों सहित प्राधिकरण और अपील अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्तों तथा प्रशासनिक व्यय। प्राधिकरण केवल उन्हीं पदों के लिए व्यय का वहन करेगा जो अधिनियम (2016 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 28 के अधीन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।
- (ii) प्राधिकरण द्वारा गठित सलाहकार समिति के सदस्यों को संदत्त किया जाने वाला मानदेय।
- (iii) प्रशासनिक और सामान्य व्यय।
- (iv) कार्यालय परिसरों की मरम्मत और रखरखाव और अनुमोदित मानदंडों के अनुसार भाड़े पर परिसरों को लेने के लिए किराया आदि का संदाय।
- (v) परामर्शी कार्य पर व्यय।
- (vi) विधिक व्यय, जिसमें प्राधिकरण द्वारा नियुक्त अधिवक्ताओं को फीस का संदाय भी सम्मिलित है।
- (vii) कर्मचारिवृन्द को ऋण और अग्रिम।
- (viii) कर्मचारिवृन्द कल्याण उपायों में अभिदाय।
- (ix) कानूनी जमा।
- (x) परिसंपत्तियों और अन्य पूंजीगत मदों आदि की खरीद (क्रय)।
- (xi) प्राधिकरण के लेखों की संपरीक्षा के लिए फीस।
- (xii) अधिनियम की धारा 34 और 35 के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में प्राधिकरण के व्यय।
- (xiii) विविध और अन्य व्यय।

5. निधि की संक्रिया.—(1) निधि को ऐसे सदस्यों की समिति के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा प्रशासित किया जायेगा, जैसा की अध्यक्ष द्वारा अवधारित किए जाएँ।

(2) बजट उपबंधों के अधीन सरकार द्वारा आवंटित अनुदानों को उप-नियम (1) के अधीन गठित समिति के आहरण और संवितरण अधिकारी द्वारा निधि में आहरित एवं जमा करने की व्यवस्था की जाएगी।

(3) प्राप्त समस्त निधियां बैंक में प्राधिकरण के खाते में जमा की जाएगी और समिति द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा अनुमोदन के सिवाय आहरित नहीं की जाएगी।

(4) पदाभिहित अधिकारी, प्राधिकरण द्वारा गठित समिति की ओर से प्राप्तियों के समुचित संव्यवहारों और संदायों के लिए उत्तरदायी होगा।

6. निधि का बंद होना.—(1) जब तक अधिनियम के सुसंगत उपबंध प्रवृत्त रहेंगे, निधि तब तक प्रवर्तनशील रहेगी।

(2) निधि के अधीन शेष अतिशेष या जब निधि की आवश्यकता नहीं रह जाती है तब निधि के बंद होने की तारीख से तीन मास के भीतर उसका सरकारी लेखा (खाते) में परिहार कर दिया जायेगा।

आदेश द्वारा,
अक्षय सूद,
सचिव (आवास)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. HSG-A(3)-7/2020 dated 7th May, 2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

HOUSING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th May, 2022

No. HSG-A(3)-7/2020.—In exercise of powers conferred by clause (zf) of sub-section (2) of section 84 read with section 75 of the Real Estate (Regulation and Development) Act (Act No. 16 of 2016) the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules for the constitution of the “Himachal Pradesh Real Estate Regulatory Fund”, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the constitution and manner of application of “Himachal Pradesh Real Estate Regulatory Fund Rules, 2022.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016;

- (b) “accounting period” means the period for which the accounts have to be prepared by the Authority and shall be concurrent with the Financial Year;
 - (c) “Drawing and Disbursing Officer” (DDO) means officer authorized by the Authority or the committee constituted as per the provisions of sub-section (3) of section 75 of the Act to draw money from the Fund and make authorized payments on behalf of the Authority;
 - (d) “expenses” means the expenses to be incurred by the Authority in the discharge of its functions under the Act;
 - (e) “employees” means the employees of the Authority;
 - (f) “Fund” means the Himachal Pradesh Real Estate Regulatory Fund to be constituted as per provisions of sub-section (1) of section 75 of the Act;
 - (g) “Financial Year” means a period not exceeding twelve calendar months commencing from 1st April of a year and concluding on 31st March of the next year;
 - (h) “Government” means the Government of Himachal Pradesh; and
 - (i) “Remuneration” means the remuneration to be paid to the Chairperson, Members, and Officers and employees of the Authority;
- (2) Words or expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act shall have the same meaning(s) as respectively assigned to them in the Act.

3. Constitution of Fund.—(1) The Government hereby constitutes a Fund to be called the Himachal Pradesh Real Estate Regulatory Fund in terms of the provisions of sub-section (1) of section 75 of the Act.

(2) The Fund shall comprise of,—

- (a) all Government grants received by the authority;
- (b) fees received by the Authority under the Act;
- (c) the interest accrued on the amounts referred to in clause (a) and (b).

4. Application of Fund.—The fund shall be applied for meeting the following expenses:—

- (i) The salaries and allowances payable to the Chairperson, Members, the Adjudicating Officer and the administrative expenses including the salaries and allowances payable to the officers and other employees of the Authority and the Appellate Tribunal. The Authority will meet expenditure for only those posts which are approved by the Government of Himachal Pradesh under section 28 of the Act (Act No. 16 of 2016).
- (ii) Honorarium to be paid to the members of Advisory Committee constituted by the Authority.
- (iii) Administrative and general expenses.

- (iv) Repairs and maintenance of office premises and payment of rent etc. for hiring premises as per approved norms.
- (v) Consultancy expenditure.
- (vi) Legal expenses, which include the payment of fees to the counsels engaged by the Authority.
- (vii) Loans and advances to the staff.
- (viii) Contribution to staff welfare measures.
- (ix) Statutory deposits.
- (x) Purchase of assets and other capital items, etc.
- (xi) Fees for the audit of the accounts of the Authority.
- (xii) The expenses of the Authority in discharge of its functions under section 34 and 35 of the Act.
- (xiii) Miscellaneous and other expenses.

5. Operation of the Fund.—(1) The Fund shall be administered by the Authority through a committee of such members as may be determined by the Chairperson.

(2) The grants allocated by the Government under budgetary provisions shall be arranged to be drawn and deposited into the Fund by the Drawing and Disbursing Officer of the committee constituted under sub-rule (1).

(3) All funds received shall be deposited into the Authority's account in the bank and shall not be withdrawn except on approval by the officers authorized by the committee.

(4) The officer designated shall be responsible for monitoring the proper transactions of receipts and payments on behalf of the committee constituted by the Authority.

6. Closure of Fund.—(1) The Fund shall remain operational as long as the relevant provisions of the Act remain in force.

(2) The remaining balance under the fund or when the fund is no longer required shall be remitted into the Government Account within three months from the date of closure of the fund.

By order,
Sd/-
(AKSHAY SOOD),
Secretary (Housing).

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 07 मई, 2022

संख्या: राजस्व-घ (ए)1-12/2021(लाहौल एवं स्पिति).—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश का दर्जा बढ़ाकर तहसील कर दिया जाए जिसका मुख्यालय उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश में होगा ताकि नजदीक के गांवों के सम्बद्ध लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें और जिससे उनको होने वाली किसी असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण हो सके;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित पटवार वृत्तों से समाविष्ट उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश का दर्जा बढ़ाकर तहसील का दर्जा प्रदान करते हैं:—

तहसील का नाम	मुख्यालय	उप-मण्डल का नाम	जिला	समाविष्ट किए गए पटवार वृत्त
1	2	3	4	5
उदयपुर	उदयपुर	उदयपुर	लाहौल एवं स्पिति	1. उदयपुर 2. मियाडनाला 3. तिन्दी 4. त्रिलोकनाथ

आदेश द्वारा,
ओंकार चन्द शर्मा,
प्रधान सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Rev-D(A)1-12/2021-(L&S) dated 07-05-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 07th May, 2022

No. Rev-D(A) 1-12/2021-(L&S).—WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to upgrade the status of Sub-Tehsil Udaipur, District Lahaul & Spiti, Himachal Pradesh to that of Tehsil with its Headquarter at Udaipur, District Lahaul & Spiti, Himachal Pradesh, so as to provide better services to the concerned people of nearby villages and to avoid any inconvenience being faced by them and to have a better administrative control;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and section 5 of the Registration Act, 1908

(Act No. 16 of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to upgrade the status of Sub-Tehsil Udaipur to that of Tehsil in District Lahaul & Spiti, Himachal Pradesh, consisting of following Patwar circles:—

Name of the Tehsil	Headquarter	Name of Sub-Division	District	Patwar Circles Included
1	2	3	4	5
Udaipur	Udaipur	Udaipur	Lahaul & Spiti	1. Udaipur 2. Miyadnala 3. Tindi 4. Triloknath

By order,

ONKAR CHAND SHARMA,
Principal Secretary-cum-FC (Revenue).

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated: the 02nd May, 2022

No. HHC/Estt.3(578)/2006.—14 days earned leave with effect from 02-03-2022 to 15-03-2022 with permission to prefix Gazetted holiday on 01-03-2022 is hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Smt. Seema Sharma, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Smt. Seema Sharma has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Seema Sharma would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for her proceeding on leave.

By order,

Sd/-

Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated: the 02nd May, 2022

No. HHC/Admn.3(270)/88-I.—05 days commuted leave *w.e.f.* 29-03-2022 to 02-04-2022 with permission to suffix Sunday on 03-04-2022 is hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Smt. Sanjokta Thakur, Court Master of this Registry.

Certified that Smt. Sanjokta Thakur has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Sanjokta Thakur would have continued to officiate the same post of Court Master but for her proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated: the 05th May, 2022

No. HHC/15-55/Jus/Acctts/2021.—It is hereby notified that Hon'ble Mr. Justice Satyen Vaidya, Additional Judge, High Court of Himachal Pradesh, has assumed the charge of the office of the Judge of the High Court of Himachal Pradesh in the forenoon of 5th May, 2022, in pursuance of Notification No. K-13020/01/2022-U.S.II dated 27th April, 2022, issued by the Government of India, Ministry of Law and Justice (Department of Justice), New Delhi.

By order,
Sd/-
(VIRENDER SINGH),
Registrar General.

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री डुमणू पुत्र श्री गन्गू निवासी टिकरू, डाकघर गोली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारा इश्तहार।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र, अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि मेरा सही नाम प्रकाश चन्द है। मेरी परिवार नकल ग्राम पंचायत मनोला में व मेरी मलकियती भूमि मुहाल मन्धयार में मेरा नाम प्रकाश चन्द पुत्र डुमणू दर्ज है जो सही है, लेकिन मलकीयती भूमि मुहाल गोली, पटवार वृत्त भटोली में मेरा नाम पाछो पुत्र डुमणू पुत्र गन्गू दर्ज है जोकि गलत है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की

अदालत में दिनांक 12-05-2022 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 06-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्रीमती ठिम्बी देवी पत्नी स्व0 श्री दिवान चन्द पुत्र श्री पुरखा, निवासी द्रमणु, डाकघर गोली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारा इश्तहार।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र, अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि मेरा सही नाम ठिम्बी देवी है। मेरी परिवार नकल ग्राम पंचायत पधरोटू में मेरा नाम ठिम्बी पत्नी श्री दिवान चन्द पुत्र पुरखा दर्ज है जो सही है, लेकिन मलकीयती भूमि मुहाल पधरोटू, पटवार वृत्त भटोली में मेरा नाम निमो देवी पत्नी दिवान चन्द पुरखा दर्ज है जोकि गलत है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 17-05-2022 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 31-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकार, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती पूजा पत्नी श्री दिल थापा, निवासी गांव खराट, डाकघर तारागढ़, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री अनवी थापा की जन्म तिथि 28-10-2017 है, जो कि ग्राम पंचायत तारागढ़ के रिकार्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया की पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत तारागढ़ के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 21-05-2022 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

ज्ञान चन्द,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर : तहसील रीडर/2022

तारीख पेशी : 30-04-2022

संजय पुत्र श्री वजीरु, निवासी गांव/मुहल्ला बुलुआ, परगना पंजला, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत रजेरा चम्बा

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु दर्ज करने बारा।

प्रार्थी संजय पुत्र वजीरु, निवासी गांव/मुहल्ला बुलुआ, परगना पंजला, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी माता नामक सलोचना की मृत्यु दिनांक 12-10-2002 को हुई है। लेकिन मृत्यु से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत रजेरा, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय में दर्ज न हुई है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी संजय पुत्र वजीरु, निवासी गांव/मुहल्ला बुलुआ, परगना पंजला, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) की माता की मृत्यु दिनांक 12-10-2002 को ग्राम पंचायत रजेरा, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी संजय पुत्र वजीरु, निवासी गांव/मुहल्ला बुलुआ, परगना पंजला, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) की माता की मृत्यु दिनांक 12-10-2002 को ग्राम पंचायत रजेरा, विकास

खण्ड मैहला के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 01-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुये हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर : तहसील रीडर/2022

तारीख पेशी : 30-04-2022

सवारदीन, निवासी गांव/मुहल्ला भडाली, परगना गुदियाल, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत पलुंही, विकास खंड चम्बा

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु दर्ज करने बारा।

प्रार्थी सवारदीन पुत्र मुन्नू, निवासी गांव/मुहल्ला भडाली, परगना गुदियाल, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसके लड़के नामक नजामदीन का जन्म दिनांक 13-08-2006 को हुआ है। लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत पलुंही, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय में दर्ज न हुई है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी सवारदीन पुत्र मुन्नू, निवासी गांव/मुहल्ला भडाली, परगना गुदियाल, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) के लड़के की जन्म तिथि 13-08-2006 को ग्राम पंचायत पलुंही, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी सवारदीन पुत्र मुन्नू, निवासी गांव/मुहल्ला भडाली, परगना गुदियाल, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) के लड़के की जन्म तिथि 13-08-2006 को ग्राम पंचायत पलुंही, विकास खण्ड चम्बा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 01-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुये हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H. P.)

Preet Pal Singh s/o Sh. Balvinder Singh, resident of Mohalla Sultanpur, Chamba Town,
District Chamba, H. P.

and

Diksha Kumari d/o Sh. Prithi Singh, resident of Village Parnoti, P.O. Baat, Tehsil & Distt. Chamba (H.P.)

Versus

The General Public

Subject.— Notice regarding registration of Marriage under sections 15 & 16 of Special of Marriage Act, 1954.

Whereas, the above named applicants have made an application before the undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) alongwith affidavits and other relevant documents stating therein that they have solemnized their marriage on 06-05-2020 at their place of residences and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Now therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 16-05-2022. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the Court on this 16th of April, 2022.

Seal.

NAVEEN TANWAR, IAS,
Sub-Divisional Magistrate,
Chamba, District Chamba (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H. P.)

Bashir s/o Sh. Ibrahim, resident of Village Ganji, P.O. Sarahan, Tehsil & District Chamba (H. P.)

and

Pyaro d/o Sh. Yakub, resident of Village Daghei, P.O. Kiri, Tehsil & Distt. Chamba (H.P.)

Versus

The General Public

Subject.— Notice regarding registration of Marriage under sections 15 & 16 of Special of Marriage Act, 1954.

Whereas, the above named applicants have made an application before the undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) alongwith affidavits and other relevant documents stating therein that they have solemnized their marriage on 05-03-2017 at their place of residences and they are

living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Now therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 18-05-2022. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the Court on this 16th of April, 2022.

Seal.

NAVEEN TANWAR, IAS,
Sub-Divisional Magistrate,
Chamba, District Chamba (H.P.).

**In the Court of Dr. Harish Gajju, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)**

In the matter of :

1. Mahinder Kumar aged 34 years s/o Late Sh. Himal Chand, r/o Village Jamuli, P.O. Kheri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Meera Devi aged 19 years d/o Bhinder Singh, r/o Village Markhan, P.O. Jhatingri, Tehsil Padhar, District Mandi (H.P.) . . Applicants.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.— Notice of the Intended Marriage.

Mahinder Kumar aged 34 years s/o Late Sh. Himal Chand, r/o Village Jamuli, P.O. Kheri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) and Meera Devi aged 19 years d/o Bhinder Singh, r/o Village Markhan, P.O. Jhatingri, Tehsil Padhar, District Mandi (H.P.) through counsel Sh. Sanjay Jaswal have filed an application in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize their marriage within three months of calendar.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 11-05-2022. The objections received after 11-05-2022. will not entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 08-04-2022 under my hand and seal of the court.

Seal.

Dr. HARISH GAJJU, H.A.S.,
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

**In the Court of Dr. Harish Gajju, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)**

In the matter of :

1. Satish Kumar aged 30 years s/o Sh. Pritam Singh, r/o Village Pargna, P.O. Bir Bagehra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Dropati Orang aged 18 years d/o Debra Orang, r/o Village Dighaldal, P.O. Bansbera, Tehsil Gurubanda, District Sonitpur, Assam-784 506 . . Applicants.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.— Notice of the Intended Marriage.

Satish Kumar aged 30 years s/o Sh. Pritam Singh, r/o Village Pargna, P.O. Bir Bagehra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) and Dropati Orang aged 18 years d/o Debra Orang, r/o Village Dighaldal, P.O. Bansbera, Tehsil Gurubanda, District Sonitpur, Assam-784 506 through counsel Sh. Sanjay Jaswal have filed an application in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize their marriage within three months of calendar.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 11-05-2022. The objections received after 11-05-2022 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 08-04-2022 under my hand and seal of the court.

Seal.

Dr. HARISH GAJJU, H.A.S.,
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

**In the Court of Dr. Harish Gajju, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)**

In the matter of :

1. Anil Kumar aged 26 years s/o Sh. Bhagwan Dass, r/o Village Barbadar, P.O. Chabutra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Rajni aged 20 years d/o Pawan Kumar, r/o Village House No. 229/1, Bazar Kalan, Bhadurpur, Tehsil & District Hoshiarpur, Punjab . . Applicants.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.— Notice of the Intended Marriage.

Anil Kumar aged 26 years s/o Sh. Bhagwan Dass, r/o Village Barbadar, P.O. Chabutra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) and Rajni aged 20 years d/o Pawan Kumar, r/o Village House No. 229/1, Bazar Sonitpur Kalan, Bhadurpur, Tehsil & District Hoshirpur Punjab through counsel Sh. Sanjay Jaswal have filed an application in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize their marriage within three months of calendar.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 11-05-2022. The objections received after 11-05-2022 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 08-04-2022 under my hand and seal of the court.

Seal.

Dr. HARISH GAJJU, H.A.S.,
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

**In the Court of Dr. Harish Gajju, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)**

In the matter of :

1. Sunil Kumar aged 22 years s/o Sh. Raj Kumar, r/o Village Chabutra Khas, P.O. Chabutra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Munisha aged 19 years d/o Sh. Ramesh Chand, r/o Village Gharan, P.O. Bari, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) . . Applicants.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.— Notice of the Intended Marriage.

Sunil Kumar aged 22 years s/o Sh. Raj Kumar, r/o Village Chabutra Khas, P.O. Chabutra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) and Munisha aged 19 years d/o Sh. Ramesh Chand, r/o Village Gharan, P.O. Bari, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) through counsel Sh. Hiamanshu have filed an application in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize their marriage within three months of calendar.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this

court on or before 11-05-2022. The objections received after 11-05-2022 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 08-04-2022 under my hand and seal of the court.

Seal.

Dr. HARISH GAJJU, H.A.S.,
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

